



### **Govt making plans** for next phase of privatizing airports

speeds up the modernization of airports," Pragya Priyadarshini, Vice President at Primus Partners said. "Private partnerships ensure better operational performance and support the overall growth of the aviation sector.'

Queries sent to the civil aviation ministry remained unanswered until press time.

Currently, only 14 out of the more than 135 airports in the country are operated under the PPP mode, as per government data. These airports are generally leased for a specific time period, usually 50 years, and as per the terms and conditions of the bid documents.

This will be the third phase of airport privatization. The first phase-in the mid-2000s-saw privatization of airports in Delhi and Mumbai, and construction of greenfield airports in Bengaluru and Hyderabad. The second phase saw privatization in 2019 of six Airports Authority of India (AAI) airports in

Ahmedabad, Jaipur, Thiruvananthapuram, Mangaluru, Lucknow and Guwahati.

As part of the plan discussed under Modi 2.0, the AAI was looking for operation,

management and development under PPP mode for around II airports that includes Bhubaneswar, Tiruchy, Raipur, Amritsar and Varanasi. These were to be clubbed with loss-making airports such as Kangra, Kushinagar, Gaya, Hubballi, Aurangabad, and Tirupati.

As per Niti Aavog-developed National Monetisation Pipeline, 25 AAI airports have

Particulars

Revenue from Operations

Profit for the period (before tax and exceptional)

Profit for the period after tax (after exceptional)

Other Comprehensive Income (after tax)]

Earnings per share (of INR 2/- each)

Revenue from Operations (Loss) Before Tax

Total Comprehensive (Loss)

(Loss) After Tax

Place: New Delhi

Date: July 22, 2024

Basic & Diluted

Notes:

Profit for the period before tax (after exceptional)

Paid-up Equity Share Capital (Face Value - INR 2/- per share)

to time and have issued an unmodified review opinion

Additional Information on Standalone financial results is as follows:-

Other Equity excluding Revaluation Reserves as per the balance sheet



in India are operated under the PPP mode

been earmarked for leasing over the years 2022 to 2025. Apart from the above six profitable airports, the others are Calicut, Coimbatore, Nagpur, Patna, Madurai, Surat, Ranchi, Jodhpur, Chennai, Vijayawada, Vadodara, Bhopal, Tirupati, Hubli, Imphal, Agartala, Udaipur, Dehradun and Rajahmundry.

"Nine of the top 14 airports (in terms of passenger han-

dled) in India are **Under National** already operating Monetisation under the PPP model and the Pipeline, 25 AAI traffic at these airports recovered earmarked for to 108.4% of the pre-covid traffic in FY2024," said Vinay Kumar G.,

vice president & sector head - corporate ratings, Icra Ltd.

airports are

leasing over

2022 to 2025

Kumar added that the next top 15 airports are majorly operated by AAI (with 11 operated by AAI alone) currently and have witnessed traffic recovery to 113.6% of the precovid traffic in FY24, which are potential candidates for monetization.

For an extended version of

# Mamaearth distributors wary

Distributors claim they are struggling with inventory, stuck with goods worth at least ₹50 cr; firm refutes claims

Suneera Tandon suneera.t@htlive.com MUMBAI

istributors of Honasa Consumer Ltd (Mamaearth) have raised concerns over excessive inventory that the personal care company has dispatched to the market and delays in replacing damaged, unsold and expired stock.

Goods worth ₹50-100 crore are stuck, according to the All India Consumer Products Distributors Federation (AICPDF). The inventory pile-up comes as Honasa, which started out as an online personal care company, builds its presence in physical outlets. Honasa gets a third of its business from Honasa refuted the association's

claims. The company sells beauty and personal care products under Mamaearth, Dr Sheth's, Aqualogica and BBlunt brands. However, the issue of excessive stocks is restricted to Mamaearth, its largest brand.

The federation claimed distributors



are saddled with 90 days' worth of stocks or goods. Fast-moving consumer goods (FMCG) companies typically supply stocks for 20-30 days or 45 days at the most. Fresh orders are placed in response to how quickly products move from retail stores. Distributors then replenish the stock with retail outlets.

The issue has been on for several

months, said an executive at the federa-

"Once goods have been billed to the distributor, the liability is of the distributor. Distributors have done their job of product placement. However, offtake of products has not matched expectations," Dhairyashil Patil, national president of the AICPDF,

In a statement on Monday, the federation highlighted the "high risk" of stock expiry at warehouses and retail outlets, along with "substantial" volumes of unsold inventory returned by retailers. It claimed Honasa has delayed replacing damaged, unsold, and expired stock. Patil said some products have been lying with them for over a year and could be nearing expiry.

In response to a query by *Mint*, a company spokesperson refuted the federation's claims, asserting that the statement contained errors and discrepancies.

"Honasa Consumer Ltd is dedicated to building distribu-

tion as a core strength for its business. We aim to achieve this by establishing enduring relationships with the right distribution partners, built on trust and mutual benefit," the spokesperson said. "We have been leveraging technology solutions for tracking inventory, sales, promotions, etc., to ensure transparent and efficient processes

across the value chain. We are committed to fostering strong, long-term partnerships with all our distributors and will keep working on addressing

any concerns which come in the way. Patil said the federation has raised the issue with the company several

"We have asked them to replace old stock with fresh stock. A lot of inventory is still sitting with

retailers," he said. Some 200-300 distributors are affected by the issue, said Patil. To be sure, Honasa

has stepped up efforts to reach more offline outlets-a major sales channel for companies in the FMCG space. Small mom-and-pop stores still

 $account for the \,bulk \, of FMCG \, sales \, in \,$ India. As of March, Honasa's products were available in 188.377 retail outlets.

The company started selling goods through physical stores four years ago. To read an extended version of this story, go to livemint.com.

Days worth of

### Qatar wealth fund goes after Byju Raveendran's personal assets

### FROM PAGE 1

"If the party has issued a personal guarantee, then in case of default, lenders can enforce a personal guarantee by initiating legal proceedings. A personal guarantee can be of a continuing type of a specific guarantee", said Jidesh Kumar. managing partner, Kings Stubbs & Kasiva, a law firm.

However, it is not clear from the QIA filing whether Raveendran did offer a personal guarantee. The last known highprofile case where a personal this story, go to livemint.com. guarantee was invoked by a

lender was in the case of Kingfisher Airlines founder Vijay Mallaya. Generally, banks demand personal guarantees in clearing large loans.

Qatar Investment Authority has sought relief under Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. Respondents include Raveendran and his Singapore investment entity Byju's Investments, which is controlled by Raveendran and his family.

In 2022, QIA had lent \$250 million to Raveendran against his shares in Think & Learn Pvt. Ltd, which he invested in the edtech business at a valuation of\$22 billion. At the time, Raveendran had pointed to the steep valuation to claim that

Byju's was not

million round

announced in

affected by the onset of a funding winter. This transaction was initially part of an \$800

March 2022 from equity investors such as Vitruvian Partners, Oxshott Capital Partners and

Sumeru Ventures. Investments

from Oxshott and Sumeru never materialized. Of the \$800 million, Raveendran said he had raised \$350 million in

his

it is not clear from capacity to invest in the company. **Qatar Investment** Of this \$350 mil-Authority's filing lion, \$250 million whether came from QIA Raveendran did and \$100 million offer a personal from IIFL Hold-

> QIA and Raveendran did not

personal

respond to requests for comments on Monday. In October 2022, Byju's said it had raised \$250 million including from QIA, though it did not offer a break-up. Earlier, QIA had led a \$150 million investment in Byju's in July

QIA's current stake may prove to be worthless, after Byju's attempted to raise a \$200 million rights issue in January 2024, at a \$25 million pre-money valuation. This would have wiped out any investor that did not participate in the funding round because of the throwaway nature of the valuation of this round. Investors in Byju's came in at a higher valuation and if they choose not to participate in future rounds at a discounted valuation, then they risk severe dilution in their stakes

As a result, at least four inves tors - Sofina, Prosus, Peak XV and General Atlantic - have challenged the legality of the rights issue at the National Company Law Tribunal, and have petitioned the court to also oust the management citing suppression of minority rights and misgovernance by founders.

ranjani. raghavan@livemint.com

### M.P. POWER GENERATING COMPANY LIMITED

Office of The Addl. C.E. (P&W), Shree Singaji Thermal Power Project, Dongalia Distt. Khandwa (M.P.) E-mail ID: sepnw.sstpp1@gmail.com, Website: mppgcl.mp.gov.in, Phone: 9407033933 No. 515-1700/SSTPP/MPPGCL/P&W/4063 Date: 07.07.2023

| NOTICE INVITING E-TENDER                                           |                                               |            |                                                           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tender Particulars/Tender Number                                   | Estimated<br>Cost (Rs.)<br>(including<br>GST) | Cost &     | Last Date and<br>Time for closing of<br>Online Submission |  |  |  |
| Procurement for Upgradation, Supply & installation of Siemens make | 67.21                                         | 2000/- &   | 05.08.2023 up to                                          |  |  |  |
| PLC & SCADA software along with supply of Industrial PCs for Wagon | Lakhs                                         | 1,34,400/- | 15:30                                                     |  |  |  |
| tippler-I&II, Stacker Reclaimer and CHP control room at 2X600 MW,  |                                               |            |                                                           |  |  |  |
| PH-I, CHP, SSTPP, Dongalia. (Tender No. 2024_MPPGC_352161)         |                                               |            |                                                           |  |  |  |
| 1                                                                  |                                               |            |                                                           |  |  |  |

For extension & other details, the bidders are requested to please visit e-portal of GoMP at www.mptenders.

DIGICONTENT LIMITED

CIN: L74999DL2017PLC322147 Registered Office: Hindustan Times House, 2nd Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001, India

Tel: +91-11-6656 1234; Website: www.digicontent.co.in; E-mail: investor@digicontent.co.in

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and

2. The above un-audited consolidated financial results for the guarter ended June 30, 2024 were reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their respective meetings held on July 22, 2024. The Statutory Auditors of the Company have conducted "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time

The consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.

30.06.2024

5. The figures of the quarter ended March 31, 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date

figures upto December 31, 2023, being the end of the third quarter of the financial year, which were subjected to limited review

(389)

(389)

(389)

30.06.2024

10,427

223

223

102

1,164

**Quarter Ended** 

31.03.2024

(Refer note 5)

(402)

(402)

(402)

(not annualised)

69

M.P. Madhyam/115492/2024 // SAVE ELECTRICITY // SE (P&W)

Extract of Un-audited Consolidated Financial Results for the guarter ended June 30, 2024

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period after tax and

www.nseindia.com) and on the Company's website "www.digicontent.co.in".

### RELIABLE VENTURES **INDIA LIMITED**

Regd. Off: "Reliable House", A-6, Koh-e-fiza Indore Road, Bhopal – 462001 (M.P.) **COMPANY NOTICE** In terms of the Reg.47 of SEBI (LODR Regulation 2015, Notice is hereby given that the Board of Directors of the the 31st Day of July, 2024 at 4.30 P.M inter-alia, and approv inancial results of the company for the 1st quarter ended 30th, June, 2024. The Notice is also available or the website of the Company i.e 'Noorussabahpalace.com' and BSE www.bseindia.com

For Reliable Ventures India Limited Sd/-Place: Bhopal Director

Year ended

31.03.2024

Audited

41,456

1,270

1,270

574 708

1,164

0.99

(1,049)

(INR in Lakhs)

(1,497)

(1.497)

(1,493)

Year ended

31.03.2024

Praveen Someshwar

(DIN: 01802656)

(duly authorised by Board of Directors)

(INR in Lakhs except earnings per share data)

9,017

260

260

102

136

1,164

(not annualised

30.06.2023

Un-audited

**Quarter Ended** 

31.03.2024

Audited

(Refer note 5

11,800

941

941

606

681

1,164

30.06.2023

(362)

(362)

(360)

(not annualised)

### ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण लाट सं. 01, नालेज पार्क-IV, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201300

guarantee


पत्रांकः वरि.प्र. / (ई–निविदा सेल) / 2024 / 521ए दिनांकः 22 जुलाई, 2024 ई-निविदा आमंत्रण सूचना

महाप्रबंधक (अभियन्त्रण) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की ओर से ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-वरि. प्र. (ई—निविदा सेल)/2024/521 दिनांक 22.07.2024 के माध्यम से उल्लेखित क्रम संख्या–01 से 04 तक के कार्य की ई–निविदायें आमंत्रित जाती है। समस्त नियम व शर्तें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइटः www.greaternoidaauthority.in पर ई—निविदा लिंक एवं ई—पोर्टल https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाईटें देखते रहें।

| яν. α.                                                           | काव का नान / वक साकल                              | ુ અંગુનાાગલ ભાગલ |  |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--|--|
| निमार्ण                                                          | कार्य ।                                           |                  |  |  |
| 1.                                                               | ग्राम–बोडाकी में ईरीगेशन कैनाल के ऊपर कल्वर्ट     | रु. 13.68 लाख    |  |  |
|                                                                  | का निर्माण कार्य। (वर्क सर्किल–6)                 |                  |  |  |
| 2.                                                               | सैक्टर ईटा—2 में 24 मी. चौड़ी सड़क की रिसर्फेसिंग | रु. 59.75 लाख    |  |  |
|                                                                  | का कार्य। (वर्क सर्किल–6)                         |                  |  |  |
| 3.                                                               | सैक्टर—लैम्बडा—01 व 02 (ग्राम मकोडा एवं थापखेड़ा  | रु. 1644.67 लाख  |  |  |
|                                                                  | क्षेत्र) की 60 मीटर चौड़ी पेरिफेरियल रोड का       |                  |  |  |
|                                                                  | निर्माण कार्य। (वर्क सर्किल–6)                    |                  |  |  |
| जलापूर्ति एवं सीवर का कार्य।                                     |                                                   |                  |  |  |
| 4.                                                               | (सीवर लाईन का अनुरक्षण) ग्रेटर नौएडा में विभिन्न  | रु. 420.81 लाख   |  |  |
|                                                                  | व्यास की विभिन्न स्थानों पर सीवर लाईन बिछाये      |                  |  |  |
|                                                                  | जाने का कार्य। (वर्क सर्किल–सीवर)                 |                  |  |  |
| कम सं−1 एवं n2 पर अंकित कार्य दिनांक-24 n7 2n24 से n5 n8 2n24 को |                                                   |                  |  |  |

5.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई—निविदाओं की प्री—क्वालिफिकेशन दिनांक 07.08.2024 को 11.00 बजे खोली जाएगी एवं क्रम सं. 03, एवं 04 पर अंकित कार्य दिनांक 24.07.2024 से 07.08.2024 को 5.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई—निविदाओं की प्री—क्वालिफिकेशन दिनांक 09.08.2024 को 11.00 बजे खोली जाएगी।





## FUN क्र. सं. कार्य का नाम/वर्क सर्किल WITH FACTS **ON SUNDAYS** Catch the latest column of वरिष्ठ प्रबंधक (ई-निविदा सेल)



A guiz on the week's development.



## तोंद कम करेंगे तो कंपनी वेतन बढ़ाएगी

मुंबई, एजेंसी। भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य सुविधाएं देती हैं। लेकिन अब कंपनियां कर्मचारियों के प्रदर्शन में वजन कम करने, बेहतर नींद तथा अच्छे खान पान को भी शामिल कर रही हैं। बड़ी बात है कि इसका सालाना इंक्रीमेंट और बोनस पर भी असर पड़ेगा।

कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पिछले कुछ सालों में कई तरह के उपाय कंपनियों ने किए हैं, जिसमें अनिवार्य तौर पर हर माल स्वास्थ्य की जांच, डॉक्टरों की आसानी से



### भारतीय युवाओं में मोटापे की समस्या गंभीर विषय

भारतीय यवा आबादी में मोटापा एक गंभीर चिंता का विषय बन चका है। ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ में कहा गया है। वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१९-२०२१ भारत की आबादी की स्वास्थ्य स्थिति के अनुमान की मानें तो भारतीय वयस्कों में मोटापे की दर तीन गुना से अधिक हो गई है। बच्चों में सालाना वृद्धि दुनिया में सबसे अधिक है। हालांकि इस मामले में विश्व मोटापा महासंघ ने कहा है कि वियतनाम और नामीबिया

की समीक्षा के दौरान वजन घटाने, नींद शामिल हैं। लेकिन अब चीजों को के अच्छे पैटर्न तथा स्वस्थ खाने की अलग स्तर पर ले जाया जा रहा है। आदतों की भी समीक्षा की जाएगी। फर्म 10 प्रतिशत वेटेज: आदित्य बिड्ला के एक वरिष्ठ कार्यकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हम हेल्थ इंश्योरेंस ने कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन मल्यांकन कहा है। साफ है कर्मचारी के प्रदर्शन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य के

लिए लक्ष्य निर्धारित करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब तक सेल्स, ग्राहकों की संख्या बढ़ाना इत्यादि ही था। स्वास्थ्य लक्ष्यों को अधिकतम 10% वेटेज दिया जाएगा जो लोग लक्ष्य प्राप्त करेंगे, उन्हें फर्म के त्रैमासिक/वार्षिक परस्कारों में मान्यता दी जाएगी।

### 'एनसीपी विधायक से हुई थी पूछताछ'

पुणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने खुलासा किया कि पुणे में एक नाबालिंग की लग्जरी कार से हुई दुर्घटना के बाद पुलिस ने एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे से 3-4 घंटे तक पूछताछ की थी। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि हादसे के बाद के घटनाक्रम में विधायक की कोई भूमिका नहीं थी।

पवार ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा, पूछताछ में सुनील ने जो सच था स्पष्ट रूप से बता दिया था। बता दें कि पणे के वडगांव शेरी में नाबालिग चालक ने कार से बाइक सवार दो आईटी पेशेवरों को रौंद दिया था।

दुर्घटना का जिक्र करते हुए अजित

## सड़क के गहों में लोगों ने धान रोप दिया

हैदराबाद, एजेंसी। तेलंगाना में टूटी और जर्जर सड़कों को बनवाने के लिए गुहार लगाते-लगाते जब लोग थक गए तो हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाए टूटी सड़क पर बने गड़े में धान की रोपाई

शुरू कर दी। दरअसल जर्जर सड़क के कारण यहां लोगों को हर दिन असविधा का सामना करना पड़ता है। जगह-जगह गड्ढों में पानी भरा है लेकिन नगर निगम कुछ नहीं कर रही।

ऐसे में अपनी निराशा और परेशानी जाहिर करने के लिए तेलंगाना के निवासियों ने विरोध जताने का खास तरीका अपनाया। नगर निगम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पानी से भरे गड़ीं के आसपास जमा हो लोगों ने इसमें धान रोपे। प्रदर्शन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

## जड़ से हराओ रोज़-रोज़ की एसिडिटी, गैस, बदहज़मी को झंड़ पंचारिष्ट एसिडिटी गैस पाचन बदहज़मी पेट फूलने 35 आयुर्वेदिक तत्व आज़ादी पेट की पाचन को जड से मज़बूत करे पाचन शक्ति बढ़ाए पेट रहे साफ

🔝 डॉक्टर से फ्री परामर्श के लिए कॉल करें: 1800 572 8000 (9:00 am to 6:00 pm) www.zanducare.com पर भी उपलब्ध

मीडिया मार्केटिंग इनिशिएटिव

### आजाद की याचिका पर एक को सुनवाई

**नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता।** दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की है।

न्यायमर्ति सधीर कमार जैन की पीठ ने मामले को विचार के लिए 1 अगस्त, 2024 के लिए सूचीबद्ध किया है। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले को जनहित याचिका की प्रकृति का बताते हुए खंडपीठ को स्थानांतरित कर

### पुलिस ऑफिस में खुदकुशी का प्रयास

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। कैंपियरगंज के शिवपर करमहा की रहने वाली एक महिला ने खेत के विवाद से आहत होकर पुलिस ऑफिस पर सोमवार को खुद पर पेट्रोल छिडक लिया। उसने दो बार लाइटर जलाकर कर खुदकुशी की कोशिश की।

इस बीच एसएसपी के स्कॉट में तैनात सिपाही ने तत्परता दिखाते हुए लाइटर छीन लिया। इस छीनाझपटी में सिपाही की आंख में पेट्रोल चला गया और वह जख्मी हो गया। उसे अस्पताल

कैंपियरगंज इलाके के शिवपुर करमहा की रहने वाली सुनीता सोमवार अपराह्न 2.40 बजे के करीब तीन मासूम बच्चों के साथ पुलिस ऑफिस पहुंची।

### DIGICONTENT LIMITED

सीआईएन:- L74999DL2017PLC322147 पंजीकृत कार्यालयः हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, दूसरी मंजिल, 18-20, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, भारत टेलीफोनः +91-11-6656 1234; वेबसाइटः www.digicontent.co.in; ई-मेलः investor@digicontent.co.in

|                                                                                                           | तिमाही समाप्त               |                                                 |                             | वर्ष समाप्त                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| विवरण                                                                                                     | 30.06.2024<br>अलेखापरीक्षित | 31.03.2024<br>लेखापरीक्षित<br>(टिप्पणी 5 देखें) | 30.06.2023<br>अलेखापरीक्षित | 31.03.2024<br>लेखापरीक्षित |
| परिचालन से राजस्व                                                                                         | 10,427                      | 11,800                                          | 9,017                       | 41,456                     |
| अवधि के लिए लाभ (कर से पहले और असाधारण)                                                                   | 223                         | 941                                             | 260                         | 1,270                      |
| कर से पहले की अवधि के लिए लाभ ( असाधारण के बाद)                                                           | 223                         | 941                                             | 260                         | 1,270                      |
| कर के बाद की अवधि के लिए लाभ ( असाधारण के बाद)                                                            | 69                          | 606                                             | 102                         | 574                        |
| अवधि के लिए कुल व्यापक आय [जिसमें समाविष्ट कर के बाद की अवधि के लिए<br>लाभ और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] | 102                         | 681                                             | 136                         | 708                        |
| चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ( अंकित मूल्य - भा. रु. 2/- प्रति शेयर)                                          | 1,164                       | 1,164                                           | 1,164                       | 1,164                      |
| तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर अन्य इक्विटी                                         |                             |                                                 |                             | (1,049)                    |
| आमदनी प्रति शेयर (भा. रु. 2/- प्रत्येक का)                                                                | (वार्षिकी नहीं)             | (वार्षिकी नहीं)                                 | (वार्षिकी नहीं)             |                            |
| बेसिक और डायल्युटेड                                                                                       | 0.12                        | 1.04                                            | 0.18                        | 0.99                       |

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 22 जुलाई, 2024

- 1. उपरोक्त सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट "www.digicontent.co.in"
- 2. दि. 30 जन. 2024 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और संस्तृति की गई तथा 22 जलाई. 2024 को सम्पन्न अपनी-अपनी बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और पुकटीकरण आवश्यकताएँ ) विनियम 2015 के विनियम 33 के अनुसार इन परिणामों की "सीमित समीक्षा" की है तथा एक असंशोधित समीक्षा गय जारी की है।
- 3. समेकित वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 साथ में पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित, के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ('Ind AS') के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- 4. स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है:-

|                                                                                                                                                                                       |                             |                                                 |                             | (भा.रु. लाखा म)            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                       | तिमाही समाप्त               |                                                 |                             | समाप्त वर्ष                |  |  |
| विवरण                                                                                                                                                                                 | 30.06.2024<br>अलेखापरीक्षित | 31.03.2024<br>लेखापरीक्षित<br>(टिप्पणी 5 देखें) | 30.06.2023<br>अलेखापरीक्षित | 31.03.2024<br>लेखापरीक्षित |  |  |
| परिचालन से राजस्व                                                                                                                                                                     | 30                          | 36                                              | 36                          | 158                        |  |  |
| (घाटा) कर से पहले                                                                                                                                                                     | (389)                       | (402)                                           | (362)                       | (1,497)                    |  |  |
| (घाटा) कर के बाद                                                                                                                                                                      | (389)                       | (402)                                           | (362)                       | (1,497)                    |  |  |
| कुल व्यापक (घाटा)                                                                                                                                                                     | (389)                       | (402)                                           | (360)                       | (1,493)                    |  |  |
| 5. दि. 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूरे वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और 31 दिसंबर, 2023, जो वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही का अंत है, तक प्रकाशित वर्ष- |                             |                                                 |                             |                            |  |  |

दर-वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं, जो सीमित समीक्षा के अधीन थे।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से प्रवीण सोमेश्वर (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकत) (डीआईएन: 01802656)

# बनट २०२४ पर यंग इंडिया के सवाल, अनय लखोटिया

## के जवाब.

स्टॉकग्रो के संस्थापक और सीईओ, अजय लखोटिया ने छात्रों के साथ बातचीत में बताया कि बजट एक आम आदमी को कैसे प्रभावित करता है...

केंद्रीय बजट आने वाले वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था का रोडमैप है। यह सरकार की आर्थिक नीतियों और उन क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो फोकस का क्षेत्र बनने जा रहे हैं। इसका आपके स्टॉक निवेश पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो को सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। बजट की घोषणा से शेयर बाजारों में कुछ अस्थिरता भी आ सकती है जिसके लिए निवेशकों को तैयार रहना होगा।

स्टॉकग्रो के संस्थापक अजय लखोटिया ने एक विशेष बातचीत में एनआईटी इलाहाबाद के ईशान अग्रवाल, संदीप यादव और आईआईटी मद्रास की देविका दिवासन के साथ बजट और आम आदमी पर इसके प्रभाव पर चर्चा की। आइए जानते हैं कि उन्होंने यंग इंडिया के लिए बजट को कैसे डिकोड किया।

हर कोई सोचता है कि बजट पूरी तरह टैक्सेस के बारे में है। इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है ?

अजय लखोटियाः यह एक मिथ है कि आम आदमी पर बजट का प्रभाव नहीं पड़ता है, यह वास्तव में एक आम आदमी को प्रभावित करता है। आइए इसे कुछ उदाहरणों से देखें। मान लीजिए, हर महीने आपके किराना का बिल रु. 50,000 है, और इसमें से अधिकांश स्टेपल है जो आप खरीदते हैं। इसमें से रु. 50,000, यदि 5% जीएसटी कॉम्पोनेन्ट १०% हो जाता है, तो आपको अतिरिक्त रूपये का भुगतान करना होगा। सालाना ३०,००० रूपये का टैक्स। इस तरह बजट का असर आम आदमी पर पड़ने लगता है।

बजट यह भी है कि सरकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि के लिए धन आवंटन कैसे तय करती है। इसलिए यदि कोई बजट अगले कुछ वर्षों में कृषि इंफ्रा के लिए अधिक धन आवंटित करता है, तो हम समझ सकते हैं कि कृषि क्षेत्र का थ्रूपूट बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि कृषि क्षेत्र में निवेश करने का यह अच्छा समय होगा।

### इस वर्ष दो बजट क्यों पेश किए गए ?

अजय लखोटियाः यह साल अनोखा था क्योंकि यह चुनावी साल था। सरकार जब बजट पेश करती है तो वह पूरे साल के लिए होता है। लेकिन चुनावी वर्षों में, यदि वही सरकार दोबारा नहीं चुनी गई, तो सभी पहलों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। नई सरकार बजट में बदलाव करेगी और विभिन्न क्षेत्रों में धन का पुनः आवंटन करेगी। इस कारण से, एक अस्थायी बजट बनाया गया जो चुनाव होने तक वैध था। अब जब चूनाव हो गया है और एनडीए सत्ता में वापस आ गई है, तो सरकार यहां से पूरे साल का बजट तय करेगी।

बजट हमेशा शेयर बाजार में हलचल पैदा करने में कामयाब होता है।

अजय लखोटियाः शेयर बाजार वित्तीय प्रणाली में बहुत गहराई तक घुसा हुआ है। इसलिए, जब नया बजट आता है, तो यह विशेष क्षेत्रों को दिए जाने वाले करों और प्रोत्साहनों को प्रभावित करता है। किसी विशेष क्षेत्र पर सरकारी खर्च बढ़ सकता है, जिससे उच्च राजस्व और मुनाफे में भी संभावित वृद्धि हो सकती है। इससे स्टॉक की कीमतों में तेंजी आती है। लेकिन इसके विपरीत भी एक सच है। उदाहरण के लिए, यदि तंबाकू पर टैक्स बढ़ता है, तो क्षेत्र का मुनाफा कम हो जाएगा और

इससे शेयर की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि दलाल स्ट्रीट को हर बजट से बहुत विशिष्ट अपेक्षाएं होती हैं ? यदि बजट लोकप्रिय नहीं है, तो आप देखेंगे कि सडक शेयर बाजारों में सधार के माध्यम से भावना को दर्शाती है। अगर बजट बहुत लोकप्रिय बजट है तो बजट की घोषणा होते ही आप

### अचानक शेयर बाजार को ऊपर जाते देखेंगे। इस साल के बजट से आम आदमी को क्या फायदा हो सकता है ?

अजय लखोटियाः यदि डायरेक्ट टैक्सेस में सुधार होता है, जो कि वह कर है जो आप सीधे अपनी आय पर चुकाते हैं, तो आपकी बचत बढ़ेगी। इसका कारण यह है कि आप पहले जितना टैक्स नहीं चुका रहे हैं। बढ़ी हुई बचत संभवतः अधिक खर्च को जन्म देगी। इससे जीडीपी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। दूसरी ओर फाइनेंसियल इन्क्लूजन और बीमा क्षेत्रों पर बढ़ा हुआ आवंटन आपके स्वास्थ्य देखभाल खर्च को कम करने जा रहा हैं, जिससे आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी। फिर, अतिरिक्त पैसा या तो खर्च किया जाता है या निवेश किया जाता है।

दिलचस्प बात यह है कि अगर कैपिटल गेन्स टैक्स में कमी होती है, तो अधिक लोग फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर देंगे, जहां आपको ब्याज पर 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता है। यदि यही तर्क स्टार्ट-अप इकोसिस्टम तक बढ़ाया जाता है, तब दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कम हो जाता है, तो बहुत सारे स्टार्ट-अप भारत में अपना मुख्यालय स्थापित करना शुरू कर देंगे। अभी, वे केवल एक ही कारण से सिंगापुर या अमेरिका में अपने मुख्यालय का पंजीकरण कराते हैं- अपने पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन्स टैक्स) के बोझ को कम करने के लिए।

बजट के बाद रक्षा और रेलवे हमेशा सबसे अधिक चर्चित क्षेत्रों में से एक रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये इस साल भी बेहतर प्रदर्शन

अजय लखोटियाः रक्षा और रेलवे पिछली कुछ तिमाहियों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि अंतरिम बजट ने दोनों क्षेत्रों को भारी प्रोत्साहन



दिया था। सरकार उसी एजेंडे के साथ वापस आई है। इसलिए रक्षा और रेलवे को जिस तरह की सब्सिडी और टैक्स लाभ दिया गया था, वह इस बजट के बाद भी जारी रहना चाहिए। मेरा मानना है कि दोनों क्षेत्र कम से कम अगली कुछ तिमाहियों तक बाजार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इनके अलावा, मुझे लगता है कि बैंकिंग और वित्त को केंद्र में रखना चाहिए, क्योंकि जब भी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, तो सबसे पहले बढ़ने वाला क्षेत्र बैंकिंग और वित्त क्षेत्र होता है।

### नए निवेशक इस बजट से अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ?

अजय लखोटियाः सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि सरकार कहां खर्च कर रही है। दूसरा, यह जानना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न क्षेत्रों को किस प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। तीसरा, यह देखें कि कुछ क्षेत्रों को किस प्रकार के कर लाभ दिए जा रहे हैं।एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच का दृष्टिकोण अपनाएं और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिन्हें विकास करना चाहिए और कुछ अच्छी कंपनियों को देखें जो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अगले दो वर्षों के लिए उस कंपनी के एप्रोच का एनालिसिस करें, एनालिसिस रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं उसका असेसमेंट करें और फिर निवेश करें। यह भी याद रखें कि जब आप निवेश कर रहे हों तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं।

इस आगामी बजट से पहले आपका अपना पोर्टफोलियो कैसे बदल रहा है ? आप किन क्षेत्रों को लेकर उत्साहित हैं ?

अजय लखोटियाः स्टॉक टिप्स के पीछे न जाएं या टेलीग्राम या

व्हाट्सएप ग्रुप्स के शिकार न बनें, जहां आपको ऐसे स्टॉक सुझाए जाते हैं जो एक महीने में दोगुने हो जाएंगे। संभवतः आपको धन की

आपको केवल सेबी पंजीकृत सलाहकारों को फॉलो करना चाहिए, जो उनके द्वारा सुझाए गए बाजार, क्षेत्रों और शेयरों को समझने के

लिए समय निवेश करते हैं और व्यापक शोध करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, रेलवे और रक्षा को लेकर बहुत आशावान हूं। इसलिए आईआरसीटीसी, वीएनएल, एचएएल, एलएंडटी, आईसीआईसीआई और एक्सिस मेरी व्यक्तिगत पसंद बने हुए हैं। लेकिन आपको केवल अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर ही रिसर्च और सिलेक्शन करना चाहिए।

(स्टॉकग्रो के संस्थापक अजय लखोटिया से बातचीत पर आधारित) (वित्तीय निवेश से पूर्व स्वयं समीक्षा अवश्य करें)



स्टॉकग्रो के साथ इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें